



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042024-253818  
CG-DL-E-23042024-253818

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 22, 2024/वैशाख 2, 1946

No. 236]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 22, 2024/VAISAKHA 2, 1946

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2024

सा.का.नि. 250(अ).—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रेल डिग्री कॉलेज, सिकंदराबाद (प्रिंसिपल) भर्ती नियम, 1982 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय अधिक्रमण से पहले जिन्हें किया गया है या करने का लोप किया गया है, को रेल मंत्रालय के अधीन प्रिंसिपल, रेलवे डिग्री कॉलेज, सिकंदराबाद के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल, रेलवे डिग्री कॉलेज (सिकंदराबाद), प्रिंसिपल, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि – भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में यथा-विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हो, से विवाह किया हो या विवाह करने की संविदा की हो, या

(ख) जिसने एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह करने की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केंद्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल करने का आदेश दे सकती है।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रिंसिपल	1* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रेल सेवा समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय।	1,31,400/- के औचित्यपूर्ण प्रारंभिक वेतन सहित शैक्षणिक स्तर 13क + 2000/- रु. प्रति माह का विशेष भत्ता	चयन पद।	50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। <b>टिप्पण 1:-</b> केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट। <b>टिप्पण 2:-</b> आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित हो।	(i) पीएच.डी. डिग्री (ii) प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर जो विश्वविद्यालय, कॉलेज और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्यापन/अनुसंधान में कम से कम कुल पंद्रह वर्ष की सेवा/अनुभव रखते हों। <b>टिप्पण :</b> अन्यथा अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हताएं शिथिलनीय हैं।

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु और	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
--	--------------------------------	--	---	---	--

शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।		द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्प-अवधि संविदा सहित) दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p>प्रोन्नति: कम से कम पंद्रह वर्ष की सेवा/अध्यापन के अनुभव के साथ 1,31,400/- रुपये के युक्तिसंगत प्रवेश वेतन के साथ शैक्षणिक स्तर -13क में रेलवे डिग्री कॉलेज के सहायक प्रोफेसर।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (अल्प-अवधि संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक संगठनों के अधिकारी:</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर प्रिंसिपल/प्रोफेसर के सदृश पद पर हों; या</p> <p>(ii) शैक्षणिक स्तर -13क में पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद धारित श्रेणी में दो वर्ष की सेवा सहित सहायक प्रोफेसर के पद पर हों; और</p> <p>ख) स्तंभ (7) में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड - अध्यक्ष;</li> <li>2. अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड द्वारा बोर्ड के दो सदस्यों को नामित किया जाएगा.- सदस्य</li> </ol> <p>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड - अध्यक्ष;</li> <li>2. अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी</li> </ol>	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है।

			<b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों के प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 'छप्पन वर्ष से अधिक नहीं' होगी।	अधिकारी रेलवे बोर्ड द्वारा बोर्ड के दो सदस्यों को नामित किया जाएगा.- सदस्य	
--	--	--	---	--	--

[फा. सं. 2008/ई(जी)आरआर/17/2]

अन्विता सिन्हा, कार्यपालक निदेशक, स्थापना (राजपत्रित संवर्ग)

**MINISTRY OF RAILWAYS****(RAILWAY BOARD)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd April, 2024

**G.S.R. 250(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Indian Railways Degree College, Secunderabad (Principal) Recruitment Rules, 1982, except as respects of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Principal, Railway Degree College, Secunderabad under the Ministry of Railways, namely :—

## 1. Short title and commencement.—

(1) These rules may be called the Indian Railways, Railway Degree College (Secunderabad), Principal, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for directrecruits.	Educational and other qualifications required for directrecruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Principal	1* (2024) * Subject to variation dependent on workload.	Railway Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Academic level 13A with rationalized entry pay of Rs. 1,31,400-+  Special Allowance of Rs. 2000/- per month.	Selection post.	Not exceeding 50 years.  <b>Note 1:</b> Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.  <b>Note 2:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the UPSC.	(i) Ph.D. degree (ii) Professor/Associate Professor with a total service/ experience of at least fifteen years of teaching/research in Universities, Colleges and other institutions of higher education.  <b>Note:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	One year for direct recruits.	By promotion failing which deputation (including	Promotion: Associate Professor of Railway Degree College in Academic Level-13A with rationalised entry pay of Rs.1,31,400/- with at least	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making

		<p>short- term contract) and failing both by direct recruitment.</p>	<p>fifteen years service/teaching experience.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation(including short-term contract):</p> <p>Officers under the Central Government/State Governments/ Union Territory Administrations/ Public Sector Undertakings/ recognised universities or research institutes/ autonomous bodies/ statutory organisations:</p> <p>(A) (i) holding analogous posts of Principal/Professor on regular basis in the parent cadre / department; or</p> <p>(ii) holding the post of Associate Professor with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Academic Level-13A or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for</p>	<p>consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board – Chairman;</li> <li>2. Two Board Members to be nominated by Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board-Members.</li> </ol> <p>Group ‘A’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board – Chairman;</li> <li>2. Two Board Members to be nominated by Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board-Members.</li> </ol>	<p>direct recruitment.</p>
--	--	--	---	--	----------------------------

			<p>appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

[F. No. . 2008/E(G)RR/17/2]

ANVITA SINHA, Executive Director, Estt. (Gaz. Cadre)